

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906  
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

**वाणिज्य मंत्रालय**

(वस्त्र विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

का. आ. 282(अ) :—ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अर्जन)  
अधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए केन्द्रीय सरकार दिनांक 11 जून, 1981 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2,  
खंड 3, उपखंड (2) के पृष्ठ 733-734 पर प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय  
की अधिसूचना सं. का. आ. 432 (अ) दिनांक 11 जून, 1981 में, जिसे अधि-  
सूचना सं. 798 (अ) दिनांक 13 नवम्बर, 1981 तथा अधिसूचना सं. 530(अ)

दिनांक 30 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किया गया था, एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4. श्री जे. के. बागची, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।”

[फाइल सं. 22/10/80-डब्ल्यू टी (पी टी)]

ए. के. सेनगुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1984

S.O. 282(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the British India Corporation Limited (Acquisition of Shares) Act, 1981 (29 of 1981), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 432(E) dated the 11th June, 1981, published at pages 733-734 of Part II—Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 11th June, 1981, which was amended by Notification No. 798(E), dated the 13th November, 1981, and Notification No. 530(E), dated the 30th July, 1983, namely :—

In the said Notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely :—

“4. Shri J. K. Bagchi, Jt. Secretary, Ministry of Commerce, Department of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.”

[File No. 22/10/80-WT(PT)]

A. K. SEN GUPTA, Director.